

REAFFIRMATION OF INDIAN STANDARDS
(WATER RESOURCES DEPARTMENT)
(जल संसाधन विभाग)

12 February 2019

Our Ref: WRD 01/Review & Reaffirmation/ all T- files

हमारा संदर्भ : डब्ल्यू आर डी 01/रिव्यू और रीएफर्मेशन/ सभी संबंधित तकनीकी फाईलें

Subject : Reaffirmation of Indian Standards Formulated by Hydrometry Sectional Committee, WRD 1

विषय : अनुभागीय समिति हाइड्रोमेट्री डब्ल्यू आर डी 01 द्वारा फॉर्मूलेटिड भारतीय मानकों की पुनः पुष्टि

The following Indian Standards have been reaffirmed during the month of December 2018 by the above mentioned Sectional Committee for a period of 5 years:

नीचे दिए गए भारतीय मानकों की पुनः पुष्टि अनुभागीय समिति हाइड्रोमेट्री डब्ल्यू आर डी 01 द्वारा दिसम्बर 2018 में अगले पाँच वर्षों के लिए की गई है :

Sl. No.	IS No.	Title
1.	IS 3917 : 2003	Scoop Type Bed Material Samplers
2.	IS 8389 : 2003	Installation and Use of Raingauges, Recording - Code of Practice
3.	IS 15352 : 2003	Liquid Flow Measurement in Open Channels - Position Fixing Equipment for Hydrometric Boats
4.	IS 15353 : 2003	Liquid Flow Measurement in Open Channels by Weirs and Flumes - V-Shaped Broad-Crested Weirs
5.	IS 15358 : 2003	Liquid Flow Measurement in Open Channels - Flow Measurements Under Ice Conditions
6.	IS 15359 : 2003	Hydrometric Determinations - Measurement of Suspended Sediment Transport in Tidal Channels
7.	IS 15360 : 2003	Measurement of Liquid Flow in Open Channels - Bed Material Sampling
8.	IS 15362 : 2003	Hydrometric Determinations - Flow Measurements in Open Channels Using Structures - Compound Gauging Structures
9.	IS 15847: 2009	Measurement of liquid flow in open channels – stage-fall-discharge relationship
10.	IS 15823 : 2009	Hydrometry - Computing stream flow using and unsteady flow model
11.	IS 16091 : 2013	Measurement of Liquid Flow in Open Channels - Method of Specifying Performance of Hydrometric Equipment
12.	IS 16138 : 2013	Measurement of Liquid Velocity in Open Channels - Design, Selection and Use of Electromagnetic Current Meters
13.	IS 3913 : 2014	Hydrometry Functional Requirements and Characteristics of Suspended-Sediment Samplers

14.	IS 13371 : 2014	Hydrometry - Calibration of Current-Meters in Straight Open Tanks
15.	IS 14359 : 2014	Hydrometry - Echo Sounders for Water Depth Measurements
16.	IS 14573 : 2014	Hydrometry - Velocity-Area Methods Using Current-Meters - Collection and Processing of Data for Determination of Uncertainties in Flow Measurement
17.	IS 14673 : 2014	Hydrometry - Open Channel Flow Measurement Using Triangular Profile Weirs
18.	IS 15118 : 2014	Hydrometry - Water Level Measuring Devices
19.	IS 15119 : Pt 2 : 2014	Hydrometry - Measurement of Liquid Flow in Open Channels Part 2 Determination of the Stage-Discharge Relationship
20.	IS 15122 : 2014	Hydrometry - Measurement of Liquid Flow in Open Channels Under Tidal Conditions
21.	IS 15772 : 2014	Hydrometry Field Measurement of Discharge in Large Rivers and Rivers in Flood
22.	IS 16223 : 2014	Hydrometry - Guidelines for the Application of Acoustic Velocity Meters Using the Doppler and Echo Correlation Methods

Director (Sales)/ DPT/ Director (Library) may please take suitable action for reaffirming the year of reaffirmation to the above mentioned standards.

उपरोक्त भारतीय मानकों के साल की पुनः पुष्टि के लिए उचित कार्यवाही हेतु निदेशक [(बिक्री/डीपीटी/डी (पीयूबी)/डीएलएससी] को प्रेषित किया जा रहा है।

(ए के दाश) (A.K. Das)

वैज्ञानिक एफ व प्रमुख(ज. सं.वि.) Scientist F & Head (WRD)

D(Sales)

DPT

D (Pub)

Director (Library)

Copy to: i) All Regional Offices

ii) All Branch Offices'/Sub Branch Offices

iii) All Departments in HQ

iv) ITS : with the request to host in the intranet.